



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 163]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 25, 1980/वैशाख 5, 1902

No. 163]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 25, 1980/VAISAKHA 5, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 1980

का० भा० 274(अ).—भारत निर्वाचन आयोग ने अपने तारीख 24 अप्रैल, 1980 के आदेश द्वारा यह निदेश दिया है कि (1) जनता पार्टी के लिए आरक्षित प्रतीक “चक्र में हलधर (चक्र हलधर)” नाम किया जाएगा; और (2) दोनों गुटों में से कोई भी गुट यदि “जनता पार्टी” नाम का प्रयोग डा० मुरली मनोहर जोशी के तारीख 14 अप्रैल, 1980 के आदेशनमते के अन्तर्गत हुए मुख्य विवाद में अन्तिम निर्णय हो जाने तक नहीं करेगा;

और निर्वाचन आयोग ने निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 5 और 10, निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आखंडन) आदेश, 1968 के पैरा 3, 6, 7, 8, और 18 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा उसे प्रत्यक्ष शक्तियों तथा इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने उक्त आदेश द्वारा यह आदेश किया है कि —

- (1) श्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता वाली जनता पार्टी के गुट को “भारतीय जनता पार्टी” के रूप में जाना जाए;
- (2) उक्त “भारतीय जनता पार्टी” को एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की जाए;
- (3) उक्त “भारतीय जनता पार्टी” के लिए “कमल” प्रतीक आरक्षित किया जाए; तथा

- (4) ऐसे सभी राज्यों की मुक्त प्रतीकों की सूची में से उक्त “कमल” प्रतीक को हटा दिया जाए जिन में वह ऐसे सम्मिलित है;

अतः, अब, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आखंडन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के उप पैरा (1) के खंड (क) और (घ) तथा उप-पैरा (2) के अनुमरण में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 खंड 3(2), तारीख 28 सितम्बर, 1979 में का० भा० 557 (घ) के रूप में प्रकाशित और समय-समय पर यथासंशोधित अपनी तारीख 28 सितम्बर, 1979 की अधिसूचना सं० 56/79 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी 1 में—

विद्यमान प्रविष्टि “5-जनता पार्टी—चक्र में हलधर (चक्र हलधर)” के स्थान पर “5-भारतीय जनता पार्टी—कमल” प्रविष्टि रखी जाएगी—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी 4 में—

- (1) मद सं० 3—बिहार के सामने, स्तम्भ 2 के नीचे “18-कमल” प्रविष्टि हटाई जाएगी और 19 से 53 तक की विद्यमान प्रविष्टियां 18 से 52 तक के रूप में पुनः संख्यांकित की जाएंगी;
- (2) मद सं० 9—केरल के सामने, स्तम्भ 2 के नीचे “7-कमल” प्रविष्टि हटाई जाएगी और 8 से 18 तक की विद्यमान प्रविष्टियां 7 से 17 तक के रूप में पुनः संख्यांकित की जाएंगी;

- (3) मद सं० 10—मध्य प्रदेश के सामने, स्तम्भ 2 के नीचे "47-कमल" प्रविष्टि हटाई जाएगी और 48 से 53 तक की विद्यमान प्रविष्टियां 47 से 52 तक के रूप में पुनः संख्यांकित की जाएंगी;
- (4) मद सं० 11—महाराष्ट्र के सामने, स्तम्भ 2 के नीचे "28-कमल" प्रविष्टि हटाई जाएगी और 29 से 49 तक की विद्यमान प्रविष्टियां 28 से 48 तक के रूप में पुनः संख्यांकित की जाएंगी; और
- (5) मद सं० 17—राजस्थान के सामने, स्तम्भ 2 के नीचे "24-कमल", प्रविष्टि हटाई जाएगी और प्रविष्टि संख्या 25 को प्रविष्टि संख्या 24 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा ।

[सं० 56/79-(11)]

आदेश से,

के० गणेशन, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 1980

S.O. 274(E).—Whereas by its order dated 24th April, 1980 the Election Commission of India has directed that (1) the symbol "Haldhar within wheel (Chakra Haldhar)" reserved for the Janta Party shall be frozen; and (2) neither of the two groups shall use the name "Janata Party" simpliciter till the final decision in the main dispute arising out of the application of Dr. Murlī Manohar Joshi dated 14th April 1980;

And whereas by its said order the Commission, in exercise of the powers conferred on it by article 324 of the Constitution read with rules 5 and 10 of the Conduct of Elections Rules, 1961, paragraphs 3, 6, 7, 8 and 18 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968 and all other powers enabling it in that behalf, ordered that—

- (i) the group of the Janata Party presided over by Shri Atal Bihari Bajpayee be known as "Bhartiya Janata Party";

- (ii) the said "Bhartiya Janata Party" be recognised as a National Party;
- (iii) the symbol 'Lotus' be reserved for the said "Bhartiya Janta Party"; and
- (iv) the said symbol 'Lotus' be excluded from the list of free symbols for all those States where it is so included;

Now, therefore, in pursuance of clauses (a) and (d) of sub-para (1) and sub-para (2) of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, the Commission hereby makes the following amendments in its notification No. 56/79, dated 28th September, 1979, published as S.O. 557(E) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(ii) dated 28th September, 1979, and as amended from time to time, namely :—

In Table 1 appended to the said notification :

For existing entry "5. Janata Party, Haldhar within wheel (Chakra Haldhar)" the entry "Bhartiya Janata Party, Lotus" shall be substituted;

In table 4 appended to the said notification :

- (i) against item No. 3, Bihar, under column 2, the entry "18. Lotus" shall be deleted and the existing entries 19 to 53 shall be renumbered as 18 to 52;
- (ii) against item 9, Kerala, under column 2, the entry "7. Lotus" shall be deleted and the existing entries 8 to 18 shall be renumbered as 7 to 17;
- (iii) against item No. 10, Madhya Pradesh, under column 2, the entry "47. Lotus" shall be deleted and the existing entries 48 to 53 shall be renumbered as 47 to 52;
- (iv) against item No. 11, Maharashtra, under column 2, the entry "28. Lotus" shall be deleted and the existing entries 29 to 49 shall be renumbered as 28 to 48; and
- (v) against item No. 17, Rajasthan, under column 2, the entry "24. Lotus" shall be deleted and the existing entry 25 shall be renumbered as 24.

[No. 56/79-(XI)]

By order,

K. GANESAN, Secy.